

नमूना प्रश्न पत्र

कक्षा-छठी

विषय-हिन्दी

कुल-अंक-40

खंड-क

- 1) अपाठित गद्यांश पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए । (1x5=5)

बच्चों को रोगों से रक्षा करने की शक्ति माता-पिता से मिलती है। अनेक बीमारियाँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती रहती हैं। आमतौर पर बच्चों का स्वभाव भी माता-पिता जैसा होता है। बच्चे पर माता-पिता के स्वभाव का गहरा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास की वृद्धि को वातावरण काफी हद तक प्रभावित करता है। गंदी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। उनके बच्चों का शारीरिक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। इसके विपरीत, गाँव के बच्चों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। उनका शरीर हष्ट-पुष्ट होता है, उनकी माँसपेशियाँ दृढ़ होती हैं। वे काफी मजबूत होते हैं। उनमें कार्य करने की क्षमता अधिक होती है।

- 1) वातावरण किस पर प्रभाव डाल रहा है ?

(क) इच्छाओं पर (ख) मनोभावों पर

(ग) शारीरिक विकास की वृद्धि पर (घ) घर पर

- 2) 'गाँव के बच्चों का शरीर कैसा होता है ?

(क) कमजोर

(ख) अस्वस्थ

(ख) हष्ट-पुष्ट

(घ) दुबला-पतला

3) बच्चे को रोगों से रक्षा करने की शक्ति किससे मिलती है ?

(क) दवाइयों से

(ख) माता-पिता

(ग) रोगों से

(घ) वातावरण से

4) बच्चे पर किसके स्वभाव का गहरा प्रभाव पड़ता है ?

(क) वातावरण का

(ख) गाँव का

(ग) माता-पिता का

(घ) शहर का

5) _____ में रहने वाले वक्तियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता ।

(क) शहरें

(ख) गाँवों

(ग) गंदी बस्तियों

(घ) घरों

2) अपाठित पद्यांश पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखिए : (5x1=5)

ऊँचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है,

नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है,

गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही हैं ,

अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती हैं,

बहती मलय पवन हैं तन -मन सँवारती हैं,

जन्मे जहाँ थे रघुपति जन्मी जहाँ थी सीता,

श्रीकृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता,

गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया,
जग को दया दिखाई, जग को दीया दिखाया
वह जन्मभूमि मेरा, वह मातृभूमि मेरी ।

- 1) कवि ने किसकी महिमा का गान किया है ?
(क) हिमालय (ख) सिंधु
(ग) मातृभूमि (घ) नदियाँ
- 2) सिंधु किसके पगतल पखाकर झूमता है ?
(क) भारत के (ख) हिमालय के
(ग) नदियों के (घ) अमराइयों के
- 3) 'अमराइयाँ' का अर्थ है -
(क) बगीचे (ख) खेत-खलिहान
(ग) आम के बाग (घ) पेड़
- 4) श्रीकृष्ण ने क्या सुनाया था?
(क) श्री रामचरितमानस (ख) गीता
(ग) वेद (घ) पुराण
- 5) 'रघुपति' किसे कहा गया है?
(क) रघुकुल को (ख) राम को
(ग) श्रीकृष्ण को (घ) सीता को

खंड-ख

3) निम्नलिखित गद्यंश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए | (5x1=5)

हर शनीचर को हमें ऑलिव आयल या कैस्टर आयल पीना पड़ता | यह एक मुश्किल काम था | शनीचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती!

छोटे शीशों के गिलास, जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती |

मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दावा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था |

1) हर शनिवार को लेखिका को क्या पीने को मिलता था ?

(क) सरसों का तेल

(ख) ऑलिव आयल या कैस्टर आयल

(ग) दही की गाढ़ी लस्सी

(घ) नारियल का तेल

2) शनीचर की सुबह से ही नाक में किसकी गंध आने लगती ?

(क) सुगंधित पकवानों की

(ख) ऑलिव आयल या कैस्टर आयल की

(ग) रसीले फलों की

(घ) सुंदर फूलों की

3) निशान लगे छोटे गिलास किसलिए प्रयोग किए जाते थे ?

(क) जूस पीने के लिए

(ख) ऑलिव या कैस्टर आयल की निश्चित खुराक पीने के लिए

(ग) सजावट के लिए

- (घ) दूध का नपी-तुली मात्रा में सेवन करने के लिए
- 4) गिलासों को देखते ही लेखिका को क्या होता ?
- (क) वे खुश हो जाती
- (ख) उन्हें मुँह में जूस का स्वाद आने लगता
- (ग) उन्हें मितली आने लगती
- (घ) उन्हें उठाकर बाहर फेंक देने का मन करता ।
- 5) लेखिका को आज क्या लगता है ?
- (क) यदि शनिवार वाली दवाई न पी होती तो कोई ज्यादा हानि न होती ।
- (ख) हम उस गंदे आयल को पीने का विरोध क्यों न करते थे ।
- (ग) पुरानी बातें याद कर चेहरे पर हँसी आ जाती है ।
- (घ) इनमें से कोई नहीं ।

4) काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर دیجिए । (5x1=5)

वह चिड़िया जो -

चोंच मारकर

दूध-भरे जुंडी के दाने

रुचि से, रस से खा लेती हैं

वह छोटी संतोषी चिड़िया

नीले पंखोवाली मैं हूँ

मुझे अन्न से बहुत प्यार है ।

- 1) कवि और कविता का नाम लिखिए?
- 2) चिड़िया किसके दाने रुचि व रस से खाती हैं?
- 3) चिड़िया को किस से प्यार है?
- 4) चिड़िया के पंखों का रंग क्या है?
- 5) पद्यांश में 'जुंडी' शब्द का क्या अर्थ है ?

5) निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।
(3x2=6)

1) लिखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या-क्या काम करती थी?

2) लेखिका बचपन में कौन-कौन सी चीज़े मजा ले-लेकर खाती थी ?

3) अंडो के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपनी दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे?

4) आशय स्पष्ट कीजिए -

चढ़ी नदी का दिल टटोल कर

जल का मोती ले जाती हैं।

6) निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए । (3x2=6)

1) अयोध्या किस नदी के किनारे पर था?

2) दशरथ की कितनी रानियाँ थी और वे कौन-कौन थी?

3) दशरथ के पुत्रों के नाम लिखिए ?

4) सुंदर वन का नाम क्या पड़ गया था?

खंड-ग

7) क) क्रिया विशेषण लिखिए-(1x2=2)

(i) आज अचानक ठण्ड बढ़ गयी हैं?

(ii) टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा

ख) विशेषण जोड़िए (1x3=3)

(i) _____ मोरो वाला बाग

(ii) _____ हँसने वाला बच्चा

(iii) _____ मूँछों वाला आदमी

8) क्रियाओ से भावाचक संज्ञा बनाओ। (1x3=3)

(i) मारना-

(ii) काटना-

(iii) खरीदना-

studycart24.com